

हुआ है। वे अनेक प्रार्थना पत्र प्रतिवेदन दे चुके हैं। स्थानीय जन प्रतिनिधि संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों ने भी इन्हें इन गांवों से नहीं हटाने के लिए और इन गांवों का रकबा नहीं लेने के लिए बराबर निवेदन किया है। लूणकरणसर तहसील के 34 गांवों के स्थान पर ब्रीकानेर और कोलायत तहसील का उनके समीप कुछ ही दूरी पर नहरी क्षेत्र से बाहर उतना कम आवादी वाला ही ऐसा बारानी रेगिस्तानी क्षेत्र है। इस उद्देश्य के लिए उम जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है।

मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान सरकार के साथ सम्पर्क करके रक्षा विभाग की ओर से उपरोक्त मुझावों के आधार पर निर्णय करके पीड़ितों को राहत दी जाएगी और सही समाधान किया जाएगा जिससे जन धन की हानि और उत्पादक क्षेत्र को नुकसान से बचाया जा सकेगा।

(ii) PERMISSION TO A PRIVATE BUSINESS CONCERN IN ORISSA TO HAVE ITS OWN CAPTIVE POWER PLANT

SHRI CHINTMANI PANIGRAHI (BHUBANESWAR) : A private business concern of Orissa has been allowed by the Union Energy Ministry to have its own captive power plant at Rayagada in Orissa. Its requirement of power is only 18 to 20 MW per day. This firm was taking power all these years from the Orissa State Electricity Board at the most concessional rate of 3.5 paise per unit when the actual cost per units was approximately more than 22 paise per unit. Even then the arrear of this firm stands at Rs. 6 crores and this firm is constantly engaged in law suits against the Board. This is really surprising that in the context of all these records the Union Government is allowing this firm to erect its own captive power plant and again as a joint venture. I urge upon the Union Government to immediately stop this permission as this will open the floodgate to all the business houses for seeking

permission to erect their own captive power plants which will negative the spirit of the Industrial Policy Resolution and shall greatly hamper the functioning of the State Electricity Boards.

(iii) EXTRA SUGAR TO CONSUMERS ON THE EVE OF DEWALI FESTIVAL

श्री रण बीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ईद के पवित्र त्यौहार पर हमारे मुसलमान भाईयों को अतिरिक्त शक्कर देकर प्रशासन ने जो उदारता दिखाई उसके लिये वह बधाई की पात्र है। इससे प्रशासन ने त्यौहारों के प्रति उदार नीति से एक सुन्दर एवं स्वस्थ छाप छोड़ी है। इसकी सभी ने सराहना की है।

इस विषय में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिये कि इसी प्रकार की उदारता वह अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर भी करते जो अन्य धर्मों से संबंधित हैं ताकि हमारी धर्म-निरपेक्षता में किसी प्रकार की आंच न आने पावे और अन्य धर्मवलम्बी अपने को उपेक्षित न समझें। दिवाली के पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था का स्वागत सर्वत्र होगा।

(iv) CONSTRUCTION OF A NEW RAILWAY LINE BETWEEN SHAHJAHANPUR AND MAILANI

SHRI JITENDRA PRASAD (SHAHJAHANPUR) : A decision was taken by the Railway Board in 1971 approximately that the Railway lines which were dismantled during the First and the Second World War will be given priority for relaying them whenever construction of new Railway lines is considered. Several Railway lines in the country have been reconstructed in accordance with the above decision. But a constant demand since the last fifteen years has been voiced by the residents of District Shahjahanpur for reconstruction of the Railway